



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 106]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 20, 2012/पौष 30, 1933

No. 106]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 20, 2012/PAUSA 30, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2012

का.आ. 116(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65) के 249.000 कि.मी. से 269.800 कि.मी. तक के भू-खण्ड (महाराष्ट्र सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप जिला अधिकारी, भूमि अर्जन संख्या 7 (मोहोल), सोलापुर को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यावहारिक रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसा सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं 9 के 249.000 कि.मी. से 269.800 कि.मी. (महाराष्ट्र सेक्शन) तक के लिए अर्जन की जानेवाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण / गट संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सोलापूर	सोलापूर दक्षिण	लमाण तांडा	67	निजी	कृषी	2283.13
				66	निजी	कृषी	544.987
				65	निजी	कृषी	801.924
				64	निजी	कृषी	257.914
				63	निजी	कृषी	577.701
				62	निजी	कृषी	541.721
				61	निजी	कृषी	2565.225
				55	निजी	कृषी	1664.203
				48	निजी	कृषी	2870.371
				46	निजी	कृषी	52.683
				44	निजी	कृषी	361.885
				45	निजी	कृषी	816.725
				41	निजी	कृषी	709.491
				40	निजी	कृषी	1828.395
				39	निजी	कृषी	899.027
				13	निजी	कृषी	2413.697
				14	निजी	कृषी	2947.427
				15	निजी	कृषी	20929.066
				18	निजी	कृषी	20509.153
				16	निजी	कृषी	6677.372
				17	निजी	कृषी	19367.773
				19	निजी	कृषी	5837.528
				29	निजी	कृषी	45211.238
				31	निजी	कृषी	6450.549
				34	निजी	कृषी	3813.433
				37	निजी	कृषी	5372.726
				38	निजी	कृषी	2086.421
						कल क्षेत्रफल	158391.765

[फा स भारगप्रा/एलण/11013/महा./सोलापूर/2010]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th January, 2012

S.O. 116(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No 9 (new NH No. 65), on the stretch of land from Km. 249.000 to Km. 269.800 (Maharashtra Section) in District Solapur in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, Within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Deputy Collector, Land Acquisition No. 7 (Mohol), Solapur, in writing, and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 249.000 to Km. 269.800 (Maharashtra Section) of the National Highway No 9 in the State of Maharashtra.

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey / Gat number	Type of land	Nature of land	Area (in square metres)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Solapur	Solapur South	Lamantanda	67	Private	Agriculture	2283.13
				66	Private	Agriculture	544.987
				65	Private	Agriculture	801.924
				64	Private	Agriculture	257.914
				63	Private	Agriculture	577.701
				62	Private	Agriculture	541.721
				61	Private	Agriculture	2565.225
				55	Private	Agriculture	1664.203
				48	Private	Agriculture	2870.371
				46	Private	Agriculture	52.683
				44	Private	Agriculture	361.885
				45	Private	Agriculture	816.725
				41	Private	Agriculture	709.491
				40	Private	Agriculture	1828.395
				39	Private	Agriculture	899.027
				13	Private	Agriculture	2413.697
				14	Private	Agriculture	2947.427
				15	Private	Agriculture	20929.066
				18	Private	Agriculture	20509.153
				16	Private	Agriculture	6677.372
				17	Private	Agriculture	19367.773
				19	Private	Agriculture	5837.528
				29	Private	Agriculture	45211.238
				31	Private	Agriculture	6450.549
				34	Private	Agriculture	3813.433
				37	Private	Agriculture	5372.726
				38	Private	Agriculture	2086.421
						Total Area	158391.765

[F. No. NHA/LA/11013/Mah./Solapur/2010]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.